

Panaji, 6th February, 2012 (Magha 17, 1933)

SERIES II No. 44

OFFICIAL GAZETTE



GOVERNMENT OF GOA

PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

No. 3

GOVERNMENT OF GOA

Department of Elections

Office of the Chief Electoral Officer

Notification

No. 5-41-2011/ELEC

The following Notification No. 464/GOA-LA/2012 dated 06-02-2012 received from the Election Commission of India, New Delhi is hereby published for general information.

Place: Panaji-Goa.

Narayan S. Navti,

Dated: 06-02-2012. Joint Chief Electoral Officer,
Government of Goa.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi - 110001

Dated: 6th February, 2012
17 Magha, 1933 (Saka)

Notification

No. 464/GOA-LA/2012

Whereas, the Governor of the State of Goa has, by Notification issued under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Official Gazette of the State on the 6th February, 2012 been

pleased to call upon all Assembly Constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

Now, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

- (A) appoints, with respect to the said election in each of the constituencies,—
- the 13-02-2012 (Monday), as the last date for making nominations;
 - the 14-02-2012 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - the 16-02-2012 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 03-03-2012 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and
 - the 09-03-2012 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 7.00 a.m. to 5.00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

BERNARD JOHN

Secretary to the
Election Commission of India

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड,
नई दिल्ली-११०००१

तारीख: ६ फरवरी, २०१२
१७ माघ, १९३३ (शक)

अधिसूचना

सं.: ४६४/गोवा-वि.स./२०१२

यतः, गोवा राज्य के राज्यपाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन जारी और ६ फरवरी, २०१२ को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा इस राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धाराओं ३० और ५६ के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रों में उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	१३-०२-२०१२ (सोमवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	१४-०२-२०१२ (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	१६-०२-२०१२ (गुरुवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	०३-०३-२०१२ (शनिवार)
(ड) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा।	०९-०३-२०१२ (शुक्रवार)

नियत करता है; और

(आ) ७.०० बजे पूर्वाह्न से ५.०० बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, निर्वाचन होगा।

आदेश से,

बर्नार्ड जॉन,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

www.goaprintingpress.gov.in

Published and Printed by the Director, Printing & Stationery,
Government Printing Press,
Mahatma Gandhi Road, Panaji-Goa 403 001.

PRICE-Rs. 2.00